

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIAएस.जी.-डी.एल.-अ.-31012025-260624
SG-DL-E-31012025-260624असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 29]	दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2025/ माघ 8, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 364
No. 29]	DELHI, TUESDAY, JANUARY 28, 2025/ MAGHA 8, 1946	[N. C. T. D. No. 364

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह पुलिस-I/स्थापना विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 28 जनवरी, 2025

फा0 सं0 01/5/2024/गृ0पु0-I/स्था0/223 से 231:-गृह मंत्रालय, भारत सरकार दिनांक 28.06.2024 की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2506 (ड) के साथ पठित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (2023 का अधिनियम 46) की धारा 176 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ: -

- (i) इन नियमों को "पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली अन्वेषण प्रक्रिया नियमावली, 2024" कहा जाए;
- (ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं: - (1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (i) "अन्वेषण" का अभिप्राय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ठ) के अंतर्गत यथा परिभाषित अन्वेषण से है;

- (ii) “मजिस्ट्रेट” का अभिप्राय संहिता की धारा 3(1) में यथा उल्लिखित न्यायिक मजिस्ट्रेट से है;
- (iii) “अपराध” का अभिप्राय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (थ) के अंतर्गत यथा परिभाषित अपराध से है;
- (iv) “पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी” का अभिप्राय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (द) के अंतर्गत यथा परिभाषित प्रभारी अधिकारी से है;
- (v) “पुलिस स्टेशन” का अभिप्राय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (प) के अंतर्गत यथा परिभाषित स्थान से है;
- (vi) ‘संहिता’ का अभिप्राय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 से है;
- (2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में दिया गया है।
3. सामान्य डायरी रिपोर्ट :
- (i) पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी द्वारा अपराधों के संबंध में सामान्य डायरी रिपोर्ट अनुरक्षित की जाएगी, जिसमें वह यह आवश्यक समझता/समझती है कि यदि इस संहिता की धारा 176 की उपधारा (1) के खंड (क) के अन्तर्गत यथा उपबंधित मामले की जांच करने के लिए या ऐसे मामलों में जहां पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि इस संहिता की धारा 176 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अन्तर्गत शामिल परिस्थितियों के अनुसार जांच आरंभ करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह व्यक्तिगत रूप से या अधीनस्थ अधिकारी के माध्यम से घटनास्थल पर कोई कार्यवाही नहीं करेगा/करेगी।
- (ii) खंड (i) में उल्लिखित रिपोर्ट सीसीटीएनएस (अपराध तथा आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क एवं प्रणाली) में अनुरक्षित रखी जाएगी और इसमें अनुलग्नक ‘क’ में दिए गए विवरण शामिल होने चाहिए और इसे मजिस्ट्रेट को प्रत्येक पखवाड़े में बिना किसी चूक के भेजा जाना चाहिए।
4. यदि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के पास वि’वास करने योग्य कारण हैं कि जांच आरंभ करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं है, तो वह धारा 176 के अन्तर्गत प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन करेगा/करेगी और इसकी सूचना कारणों सहित विलम्ब किए बिना सूचना देने वाले को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अर्थात् मोबाइल फोन, व्हाट्सएप सहित सोशल मीडिया ऐप, एसएमएस (शॉर्ट मैसेज सर्विस), लैंडलाइन फोन, ई-मेल या भौतिक रूप से देगा/देगी। नियम 3 में यथा उल्लिखित रिपोर्ट में सूचना का तरीका दर्ज किया जाएगा।

अनुलग्नक-क

- सूचना देने वाले का नाम
- सूचना देने वाले का संपर्क विवरण (फोन नंबर/ईमेल/आदि)
- सूचना देने वाले का वर्तमान और स्थायी पता
- सूचना का संक्षिप्त विवरण
- जांच आगे न बढ़ाने के कारण
- क्या सूचना देने वाले को सूचित किया गया
- सूचना देने का तरीका.....

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

कुलविन्दर सिंह, उप सचिव (गृह-I)

HOME POLICE-I/ESTABLISHMENT DEPARTMENT**NOTIFICATION**

Delhi, the 28th January, 2025

F. No. 1/5/2024/HP-I/Estt./223 to 231—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 176 of The BHARATIYA NAGARIK SURAKSHA SANHITA 2023 (ACT 46 of 2023) read with Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 2506 (E) dated 28.06.2024, the Lieutenant Governor of NCT of Delhi is pleased to frame the following Rules: -

1. Short title and commencement: -

- (i) These rules may be called as "Procedure for investigation to be followed by an officer in-charge of Police Station, Rules 2024";
- (ii) These rules shall come into force from the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions: - (1) In these rules unless the context otherwise requires-

- (i) "Investigation" means the investigation as defined under clause (l) of sub-section (1) of Section 2 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023;
 - (ii) "Magistrate" means Judicial Magistrate as explained in Section 3(1) of the Sanhita.
 - (iii) "Offence" means the offence as defined under clause (q) of sub-section (1) of Section 2 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023;
 - (iv) "Officer in charge of a police station" means the officer in charge as defined under clause (r) of sub-section (1) of Section 2 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023;
 - (v) "Police Station" means the place as defined under clause (u) of sub-section (1) of Section 2 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023;
 - (vi) 'Sanhita' means The Bharatiya Nagarika Suraksha Sanhita, 2023;
- (2) The words and expressions used in these Rules shall have the same meaning as assigned to them in the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.

3. General Diary Report:

- (i) General Diary Report shall be maintained by the officer in charge of the Police Station, in respect of the offences, wherein he/she deems it necessary not to proceed to the spot in person or through subordinate officer, to investigate the case as provided under clause (a) of sub-section (1) of Section 176 of this Sanhita or in cases where it appears to the officer in charge of the Police Station that there is no sufficient ground for entering into an investigation as per the circumstances covered under clause (b) of sub-section (1) of Section 176 of this Sanhita.
 - (ii) The Report mentioned in clause (i) shall be maintained on CCTNS (Crime and Criminal Tracking Networks and Systems) and must contain the details as given in Annexure 'A' and forwarded to the Magistrate fortnightly without fail.
4. In case the officer in charge of the police station has reasons to believe that there is no sufficient ground for entering into an investigation, then he/she shall follow the procedure as provided under Section 176 and shall also inform the same, along with reasons, to the informant without delay either through electronic mode i.e. mobile phone, social media apps including Whatsapp, SMS (Short Message Service), Landline phone, email or through physical mode. Mode of information shall be entered in the report as referred in Rule 3.

Annexure-A

- Name of informant
- Contact details of informant (phone number/email/etc)

- Present & Permanent Address of informant
- Brief of information
- Reason(s) for not proceeding to investigate
- Whether informant notified
- Mode of information.....

by Order of in the Name and
Lieutenant Governor of NCT of Delhi,
KULVINDER SINGH, Dy. Secy. (Home-I)